

भरत पियारा मेरो नाम हनुमान, नाम हनुमान मेरो ॥टेर॥

कौन दिशा से आयो भाई, इस पहाड़ को करसीं कांई

देख लेई तेरी प्रभुताई, झेल्यो मेरो बाण ॥1 ॥

लंकापुरी से आयो भाई, लक्ष्मणजी ने मुरछा आई

रावण सुत ने बाण चलायो, मार्यो शक्ति बाण ॥2 ॥

कहो भरत क्या जतन उपाऊँ, लँगड़ा कर दिया कैसे जाऊँ

संजीवन कैसे पहुँचाऊँ उदय होसी भान ॥3 ॥

आवो बाला बैठो बाण पे, तन्ने पहुँचा दूँ लंका धाम में

ऐसी मेरे जचै रही ध्यान में बाण विमान ॥4 ॥

ले संजीवन हनुमत आये, लछ्मण जी नै घोल पिलाये

सुखीराम भाषा मे गाये, चरणो में ध्यान ॥5 ॥